

प्रेस नोट

थाना हाथरस जंक्शन पुलिस, थाना सासनी पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्यवाही में थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र में पेट्रोल पम्प मैनेजर से हुई कैश लूट की घटना तथा सासनी क्षेत्र में शराब ठेके के सैल्समैन के साथ हुई लूट की घटना का सफल अनावरण दो लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लूटे हुए ₹44500 रुपये नगद तथा घटना में प्रयुक्त बुलेरो कार, चैक बुक, मोहर, थैला व अवैध असलाह-कारतूस बरामद ।

आज दिनांक 01.02.2021 को पुलिस अधीक्षक हाथरस श्री विनीत जायसवाल के आदेशानुसार अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सिकन्दाराऊ के कुशल नेतृत्व में थाना हाथरस जंक्शन पुलिस व थाना सासनी पुलिस व एसओजी टीम की संयुक्त कार्यवाही में थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र में दरियापुर पेट्रोल पम्प मैनेजर के साथ हुई कैश लूट की घटना तथा थाना सासनी क्षेत्र में शराब के ठेके के सैल्समैन के साथ हुई लूट की घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करते हुए दो शातिर लुटेरो को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। जिनके कब्जे से लूटे गये 44,500/- रुपये नगद व घटना में प्रयुक्त बुलेरो कार रंग सफेद (UP86 AD 6892) तथा चैक बुक, मोहर, थैला व 02 अवैध तमंचे 315 बोर व 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना हाथरस जंक्शन पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 13.01.2021 को थाना सासनी के कस्बा सासनी पर शराब ठेके के एजेंट (सैल्समैन) के साथ बदमाशों द्वारा कैश लूट की घटना कारित की थी। जिसके सम्बन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना सासनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था तथा दिनांक 21.01.2021 को थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के दरियापुर से हाथरस जंक्शन की ओर जाने वाली सड़क पर दरियापुर पेट्रोल पम्प के मैनेजर के साथ बदमाशों द्वारा थैले में रखे कैश लूटने की घटना कारित की थी, जिसके सम्बन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना हाथरस जंक्शन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक हाथरस श्री विनीत जायसवाल द्वारा उक्त दोनो घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए तत्काल टीमों का गठन कर घटना के सफल अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में थाना हाथरस जंक्शन पुलिस, थाना सासनी पुलिस व एसओजी टीम की संयुक्त कार्यवाही में घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल दो अभियुक्तों को लूटे हुए 44,500 रुपये तथा घटना में प्रयुक्त बुलेरो कार सफेद रंग (UP86 AD 6892) व दो चैक बुक, मोहर, थैला व 02 अवैध तमंचे 315 बोर व 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया है तथा घटना में संलिप्त शेष वाँछित अभियुक्तों की भी शीघ्र गिरफ्तारी की जायेगी।

अपराध करने का तरीका – थाना हाथरस जंक्शन पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ की गयी तो जुर्म का इकबाल करते हुये उक्त दोनो घटनाओं को कारित करना बताया तथा बताया कि हमारा चार लोगों का गिरोह है। हम लोग शराब के ठेके व पेट्रोल पम्प के सैल्समैन/मैनेजर/व्यापारी/सर्राफा आदि कैश/सामान लेकर आने जाने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके आने जाने वाले रास्ते पर तीन-चार दिन रैकी करते हैं। रैकी करने के उपरान्त हम लोग मोटरसाईकिल से उसका पीछा करते हैं तथा बुलेरो गाडी मोटरसाईकिल से पीछे रखते हैं। जिसके बाद मौका पा कर किसी सुनसान जगह पर मोटरसाईकिल से घटना कारित कर पीछे चल रही बुलेरो गाडी में रुपये लेकर भाग जाते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता-

1. कर्मवीर सिंह पुत्र महेन्द्र पाल सिंह निवासी दरियापुर थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस।
2. रिन्कू पण्डित पुत्र मानिक चन्द्र निवासी खेडा भुर्ज थाना जवां जनपद अलीगढ़।

बरामदगी का विवरण

1. 44,500/- रुपये नगद (लूटे हुये)
2. बुलेरो कार सफेद रंग (UP86 AD 6892) (घटना में प्रयुक्त)
3. दो चैक बुक
4. मोहर
5. 02 अवैध तमंचे 315 बोर ,
6. 04 कारतूस, 315 बोर

अपराधिक इतिहास अभियुक्त कर्मवीर

1. मु0अ0सं0 306/13 धारा 323/504/506/325 भादवि. थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस ।
2. मु0अ0सं0 383/13 धारा 3 यूपी. गुण्डा एक्ट थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस ।
3. मु0अ0सं0 334/15 धारा 323/504/506/452 भादवि. थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस ।
4. मु0अ0सं0 314/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस ।

गिरफ्तारी करने वाले पुलिस टीम के नाम-

1. श्री राजीव यादव, प्रभारी निरीक्षक थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस ।
2. श्री मुनीश चन्द्र, प्रभारी एसओजी टीम जनपद हाथरस ।
3. उ0नि0 नरेन्द्र पाल सिंह थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस ।
4. उ0नि0 सतीश चन्द्र थाना सासनी जनपद हाथरस ।
5. है0का0 438 अजय कुमार थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस
6. है0का0 430 श्यामवीर थाना सासनी जनपद हाथरस ।
7. है0का0 341 शीलेश कुमार, एसओजी टीम जनपद हाथरस ।
8. है0का0 64 जवाहर लाल, एसओजी टीम जनपद हाथरस ।
9. है0का0 314 प्रदीप कुमार, थाना सिकन्दाराऊ जनपद हाथरस ।
10. कां0 723 सचिन कुमार, एसओजी टीम हाथरस ।
11. कां0 251 चेतन राजौरा, एसओजी टीम हाथरस ।
12. कां0 282 जोगिन्दर सिंह, एसओजी टीम हाथरस ।
13. कां0 303 सोनवीर सिंह , एसओजी टीम हाथरस।
14. कां0 379 रामवीर सिंह थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस ।
15. कां0 262 प्रवीण कुमार थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस ।
16. कां0 283 गौरव पुरी थाना सासनी जनपद हाथरस ।

PRO CELL HATHRAS

